



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020

पौष 2, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-6

संख्या 1278/9-6-2020-06सी0वि0-2019

लखनऊ, 23 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-543

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पालिका परिषद मोहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्ताव पर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु सरकारी अधिसूचना संख्या 1876/नौ-6-2019-06 सी0वि0-2019, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनों के लिये नगर पालिका परिषद मोहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं और संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (घ) के अधीन अग्रतर अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उक्त नगर पालिका परिषद मोहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची-1

नगर पालिका परिषद मोहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र

पूरब :-

1—ग्राम बसविरवा की सम्पूर्ण गाटा संख्या—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 क, 204 ख, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 क, 245 ख, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 301/539, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 क, 331 ख, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 क, 362 ख, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 क, 372 ख, 373, 374, 375 क, 375 ख, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 क, 403 ख, 403 ग, 403 घ, 403 ङ, 404 क, 404 ख, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 क, 496 ख, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538

कुल गाटा संख्या 551

कुल क्षेत्रफल—149.2470 हे०/1.49247 वर्ग कि०मी०

2—ग्राम इस्लामाबाद (अन्दर) की सम्पूर्ण गाटा संख्या—

गाटा संख्या—1/1, 2, 3, 4/1, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 30/2, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 47, 54 मि, 57, 369/1, 369/2, 372/1, 372/2, 948, 949, 950, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 979, 980, 981, 983, 984 मि, 984 मि, 985, 986, 988, 989, 990, 993, 1000 मि, 1003/1, 1003/2, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 1011, 1013, 1014, 1017 मि, 1073, 1074, 1075, 1076 मि, 1076 मि, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085

कुल गाटा संख्या 91

कुल क्षेत्रफल—20.4860 हे०/0.20486 वर्ग कि०मी०

3—ग्राम इस्लामाबाद (Z.A.) की आंशिक गाटा संख्या—

गाटा संख्या—916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 954, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003

कुल गाटा संख्या—68

कुल क्षेत्रफल—33.477 हे०/0.3347 वर्ग कि०मी०

पश्चिम-उत्तर :-

1-ग्राम मोहम्मदी (अन्दर) की सम्पूर्ण गाटा संख्या-

गाटा संख्या-43 मि, 336मि, 337मि, 338, 338 मि, 339, 340 मि, 341 मि, 342, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 मि, 358 मि, 359 मि, 360, 362 मि, 363, 364/3, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380/1, 382, 383, 384, 385 मि, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 407, 408, 409, 410 मि, 411, 412, 416, 417 मि, 418, 419, 420, 424, 425, 426, 428 मि, 430 मि, 431 मि, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 मि, 442, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 461, 462 मि, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470अ, 471, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 484, 485, 486 मि, 487, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518/1, 518/2, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541/1, 541/1, 541/2, 542, 543, 545, 549, 550, 551, 555, 556, 557, 558, 559 मि, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 564 मि, 565/1, 565/2, 565/3 मि, 570, 574, 648 मि, 649 मि, 651 मि, 652 मि, 653 मि, 653 मि, 658 मि, 658 मि, 659, 660, 661, 663 मि, 663 मि, 664 मि, 664 मि, 665, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 मि, 682 मि, 683, 696, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 707, 712, 734 मि, 738, 750 मि, 752, 753 मि, 754 मि, 755 मि, 756, 757, 758 मि, 759, 760, 761, 769, 827, 828 मि, 829 मि, 830 मि, 831 मि, 832 मि, 833 मि, 835 मि, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 850, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 873, 874, 875, 880, 881 मि, 883 मि, 921, 922, 923, 934, 935, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 948 मि, 949, 950, 951, 953, 954, 957, 959, 971, 974, 975, 977, 979, 982, 985, 986, 988, 989, 990, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1007, 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 मि, 1021, 1022 मि, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1024, 1026, 1027, 1027 ब मि, 1029, 1030, 1031, 1033 मि, 1038 मि, 1039, 1041 मि, 1041 मि, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047/1, 1047/2, 1048, 1049, 1050 मि, 1050 मि, 1051 मि, 1052 मि, 1052 मि, 1053 मि, 1054, 1056 मि, 1057 मि, 1058, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1071 मि, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085, 1085 मि, 1086, 1087, 1088 मि, 1089 मि, 1089 मि, 1096, 1097, 1098

कुल गाटा संख्या-386

कुल क्षेत्रफल-92.9170 हे०/0.92917 वर्ग कि०मी०

2-ग्राम मोहम्मदी ((Z.A.) की सम्पूर्ण गाटा संख्या-

गाटा संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मि, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मि, 19मि, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ब, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 मि, 33, 34 मि, 34 मि, 34 मि, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 अ, 41 ब, 42/1, 42/3, 43, 44, 45 मि, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 मि, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मि, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 मि, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 मि, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 मि, 116, 117, 118, 119 मि, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 अ, 136 ब, 137, 138, 140, 141, 142 अ, 142 ब, 143 अ, 143 ब, 144 अ, 144 ब, 145, 146, 147, 148, 149 अ, 149 ब, 149 मि, 150, 151 मि, 151 मि, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 मि, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 मि, 187 क, 188, 189, 190, 191, 192, 193 अ, 193 ब, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 मि, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 अ, 213 ब, 214, 215 मि, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 मि, 224 मि, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265अ, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 मि, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 मि, 291, 292, 293, 294, 295 मि, 296, 297, 298, 299, 300 मि, 301, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 मि, 311 मि, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 अ, 322 ब, 323 मि, 323 मि, 324, 325, 326 अ, 327, 328, 329 मि, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 334/3, 334 मि, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 मि, 353, 354 मि, 355,

356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 368, 369, 369/756, 370, 372, 373, 374, 375 मि, 375 मि, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 मि, 419, 420 मि, 420 मि, 421 मि, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 मि, 436, 437, 438 मि, 439, 440, 441, 442 मि, 442 मि, 443 मि, 443 मि, 444, 445, 446, 447, 448, 449 अ, 449 ब, 450, 451 मि, 452, 453अ, 453 ब, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 464 ब, 465, 467, 469 मि, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 478/2, 479, 480, 481, 482, 483 अ, 483 ब, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 मि, 500 मि, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 509 मि, 510, 511, 512/1, 512/2, 512/3, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 मि, 524/2, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529, 530 अ, 530 ब, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558 मि, 558 मि, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, मि, 568 मि, 569, 570, 571, 571, अ, 571 ब, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 595 मि, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/1, 609/2, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615 मि, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642 मि, 642 मि, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665 अ, 665 ब, 666, 666, 666 अ, 666ब, 667, 667, 668, 669 अ, 669 ब, 670, 671, 672, 673, 675, 678, 679, 680, 681, 681 मि, 682, 683, 684 मि, 684 मि, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695 मि, 695 मि, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 मि, 715 मि, 716, 717 मि, 718 मि, 718 मि, 719, 719 मि, 720, 721 मि, 721 मि, 722, 723, 724, 725, 727, 728, 729, 730, 731, 731ब, 732 मि, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 मि, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 754, 755

कुल गाटा संख्या-800

कुल क्षेत्रफल-250.8970 हे०/2.50897 वर्ग कि०मी०

दक्षिण:-

1-ग्राम बबौरी की सम्पूर्ण गाटा संख्या-

गाटा संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मि, 15 मि, 16, 17 मि, 17 मि, 17 मि, 18, 19, 20, 21, 22 मि, 22 मि, 23, 24, 25 मि, 25 मि, 25 मि, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 47 मि, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मि, 71 मि, 72, 72 मि, 73, 74 मि, 74 मि, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 मि, 85 मि, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 मि, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 मि, 124 मि, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177 मि, 178, 179, 180, 181 मि, 182, 182 मि, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 मि, 191 मि, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200

कुल गाटा संख्या-216

कुल क्षेत्रफल-70.6760 हे०/0.70676 वर्ग कि०मी०

2-ग्राम भानपुर बनवारी की सम्पूर्ण गाटा संख्या-

गाटा संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 क, 82 ख, 82 ग, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

143/512, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 क, 234 ख, 234 ग, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 288/511, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 क, 361 ख, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 क, 371 ख, 372, 373, 374, 375, 376, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 क, 490 ख, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510

कुल गाटा संख्या- 519

कुल क्षेत्रफल-135.3310 हे०/1.35331 वर्ग कि०मी०

उपरोक्त उल्लिखित ग्रामों की कुल गाटा संख्या-2631

उपरोक्त उल्लिखित ग्रामों का कुल क्षेत्रफल -274.696 हेक्टेयर/2.747 वर्ग कि०मी०

अनुसूची-2

अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने के पश्चात् उक्त नगर पालिका परिषद मोहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी के प्रादेशिक क्षेत्र

नगर पालिका परिषद मोहम्मदी की पुरानी सीमा की दिशावार गाटा संख्या-

पूरब :-

ग्राम बबौरी, मोहम्मदी, इस्लामाबाद, गोला का भाग एवं ग्राम गारवपुर, भानपुर बनवारी एवं बसविरवा-

1-ग्राम बबौरी के आंशिक भाग की गाटा संख्या-181, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196

2-ग्राम मोहम्मदी (अन्दर) के आंशिक भाग की गाटा संख्या-719, 720, 740, 741, 752, 753, 754, 755, 734, 735, 75, 681

3-ग्राम इस्लामाबाद (अन्दर) के आंशिक भाग की गाटा संख्या-955, 956, 939, 937, 914, 915, 916, 907, 756, 758, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 825, 681, 685, 686, 548, 549, 211, 483, 484, 485, 486, 487, 488

4-गोला-शाहजहाँपुर मार्ग के आंशिक भाग की गाटा संख्या-676, 677

पश्चिम :-

ग्राम मोहम्मदी (जेड० ए०) पुवायां रोड का आंशिक भाग एवं ग्राम मगरेना, बिचपरी, सुआताली-

1-ग्राम मोहम्मदी के आंशिक भाग की गाटा संख्या-406, 460, 461, 462, 463, 465, 476, 479, 480, 481, 484, 485, 488, 555, 563, 564, 570, 573, 651, 654, 658, 701, 706, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 738

2-पुवायां रोड के आंशिक भाग की गाटा संख्या-410, 420, 428

उत्तर :-

ग्राम मोहम्मदी (जेड० ए०) इस्लामाबाद (अन्दर) का आंशिक भाग एवं ग्राम तुरकहटा-हटहटपुर व ग्राम बगवाही-

1-ग्राम मोहम्मदी के आंशिक भाग की गाटा संख्या-359, 358, 357, 355, 356, 397, 399, 362, 374, 375, 377, 326, 403, 404, 405, 407

2-ग्राम इस्लामाबाद के आंशिक भाग की गाटा संख्या-153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 169, 213, 215, 216, 222, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 408, 407, 406, 403, 404, 494, 495

दक्षिण :-

ग्राम बबौरी, मोहम्मदी (अन्दर) का आंशिक भाग एवं ग्राम खेतहरा व सरैया हार-

1-ग्राम बबौरी के आंशिक भाग की गाटा संख्या-17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 48, 54, 90, 94, 95, 96, 145, 157

2-ग्राम मोहम्मदी (अन्दर) के आंशिक भाग की गाटा संख्या-752, 741, 748, 726, 725, 724, 723, 1079

नगर पालिका परिषद मोहम्मदी का पुराना क्षेत्रफल - 478.335 हे०/4.783 वर्ग कि०मी०

नगर पालिका परिषद मोहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी की विस्तारित सीमाएँ

नगर पालिका परिषद मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर-खीरी की सीमा विस्तार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम भानपुर बनवारी, ग्राम बसविरवा की सम्पूर्ण गाटा संख्याओं को सम्मिलित किया गया है। जब कि पूर्व से सम्मिलित ग्राम इस्लामाबाद (जेड०ए०) की 68 गाटा संख्याओं को सम्मिलित करते हुए ग्राम मोहम्मदी (अन्दर) एवं ग्राम मोहम्मदी (जेड०ए०) तथा ग्राम बबौरी की सम्पूर्ण गाटा संख्याओं को इस सीमा विस्तार में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर उत्तरी परिसीमा पर स्थित ग्राम इस्लामाबाद (अन्दर) की गाटा संख्या 157, 158, 159 के पूरब गोला रोड की गाटा संख्या 161 को पार करते हुए ग्राम इस्लामाबाद (अन्दर) की गाटा संख्या 301, 302, 298, 297, 296, 167, 169 के पूरव 213, 215, 216, 222, 408, 407, 406, 403, 404, 494 के पूरव स्थित गाटा संख्या 495 के उत्तरी-पूर्वी कोने तक तत्पश्चात् ग्राम इस्लामाबाद (अन्दर) की सीमा में दक्षिण पूरब-गाटा संख्या 488, 487, 486, 485, 484, 483 से पूरव-दक्षिण चलते हुए गाटा संख्या 549, 548, 686, 685, 681, 786, 785, 783, 782 से पश्चिम-दक्षिण गाटा संख्या 780, 777, 776, 775, 758, 757, 756 के पूरब-दक्षिण कोने तक तत्पश्चात् पूरब ओर चलते हुए ग्राम इस्लामाबाद (जेड०ए०) की गाटा संख्या 917, 918, 926, 927, 993, 994, 995, 1002 से उत्तरी परिसीमा बनाते हुए गाटा संख्या-1001 के पूर्वी-उत्तरी कोने तक, तत्पश्चात् पूरब-उत्तर गुलौली रोड को पार करते हुए ग्राम बसविरवा की गाटा संख्या 1, 2, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 48, 49, 50, 51, 90, 98 के आगे गाटा संख्या 99 तक फिर दक्षिण-पूरब गाटा संख्या 96, 92, 126, 109, 110, 112, 113 की परिसीमा बनाते हुए गाटा संख्या 121, 153, 156, 157, 158, 163, 160, 168, 169, 170, 174, 494, 495, 496, 536, 537, 538 के पूर्वी-उत्तरी कोने तक फिर ग्राम बसविरवा की पूर्वी सीमा की गाटा संख्या 528, 518, 516, 518, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 441 के आगे ग्राम बसविरवा की पूर्वी-दक्षिणी गाटा संख्या 448 के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक फिर गुलौली रोड को क्रॉस करते हुए दक्षिणी-पश्चिम ग्राम भानपुर-वनवारी की गाटा संख्या 302, 301, 289, 288, 287, 286, 283, 509, 508, 502, 495, 479, 478, 468, 461, 460, 459, 458, 448, 447, 401 से दक्षिण ग्राम टेगुन खुर्रमनगर की सीमा से मिले ग्राम भानपुर-वनवारी की गाटा संख्या 395 तक फिर ग्राम भानपुर-वनवारी की गाटा संख्या 391, 377, 376, 375, 373, 346, 345, 328, 327, 326, 322 के पश्चात् गाटा संख्या 320 के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक फिर पश्चिम ओर गाटा संख्या 316, 301, 302 के साथ डामर रोड की गाटा संख्या 39 से मिले गाटा संख्या 233, 230, 229, 228, 227, 83, 84, 85 से पश्चिम गाटा संख्या 1, 3, 4, 5 से परिसीमा बनाते हुए ग्राम इस्लामाबाद (जेड० ए०)-(नवीन सम्मिलित आंशिक भाग) की गाटा संख्या 973 (अ) के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक तत्पश्चात् ग्राम मोहम्मदी (अन्दर) की गाटा संख्या-753, 752, 741, 748, 726, 725, 724, 723, 1719, 183, 190 से दक्षिण ग्राम बबौरी की सीमा के गाटा संख्या 197, 198, 199 की परिसीमा बनाते हुए गाटा संख्या 200 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक फिर शाहजहाँपुर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करते हुए ग्राम बबौरी की गाटा संख्या 124, 123, 122, 120 से उत्तर-पश्चिम गाटा संख्या 119, 118, 117, 116, 113, 112, 041 की परिसीमा बनाते हुए गाटा संख्या 02 तक फिर ग्राम खेतहरा के निकट मोहम्मदी (जेड० ए०) की गाटा संख्या 589, 587 की परिसीमा बनाते हुए गाटा संख्या 584 तक फिर उत्तर-पश्चिम मोहम्मदी (जेड० ए०) की गाटा संख्या 581, 607, 580, 579, 578, 567, 563, 561, 525, 484, 483, 482, 479, 478, 472, 454, 453 की परिसीमा बनाते हुए पुवायॉ मार्ग तक फिर पुवायॉ मार्ग को पार करते हुए ग्राम मगरेना के निकट ग्राम मोहम्मदी (जेड० ए०) की गाटा संख्या 138, 137, 130, 124, 128, 02 की परिसीमा बनाते हुए उत्तर ओर गाटा संख्या 01 के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक फिर ग्राम सुआताली से मिले ग्राम मोहम्मदी (जेड० ए०) की गाटा संख्या 41, 45, 52, 61, 62, 63, 213, 214, 217, 219, 262, 263, 264, 267, 272, 275 की परिसीमा बनाते हुए गाटा संख्या 277 के आगे 279 के पूर्वी-उत्तरी कोने तक फिर दक्षिण-पूरब चलते हुए मार्ग के निकट गाटा संख्या 294, 296, 317, 316, 314 के पूरब 319, 327, 337, 338 की परिसीमा बनाते हुए ग्राम बगवाही की सीमा से मिले गाटा संख्या 304 तक फिर पुवायॉ मार्ग को पार करते हुए ग्राम इस्लामाबाद (अन्दर) की गाटा संख्या 157 (प्रारम्भिक बिन्दु) तक।

विस्तारित नगर पालिका परिषद मोहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी की दिशावार सीमा विस्तारण करने वाली गाटा संख्याओं का विवरण

पूरब दिशा :-

1-ग्राम अलीनगर के दक्षिण (पश्चिम से पूरब) बसविरवा की गाटा संख्या 99, 96, 92, 123, 126, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 119, 120, 121, 155, 156, 157, 158, 163, 166, 168, 169, 170, 174, 494, 495, 496, 536, 537, 538

2-ग्राम गुलौली के पश्चिम (उत्तर से दक्षिण) ग्राम भानपुर बनवारी की पूर्वी-उत्तरी सीमा तक गाटा संख्या 538, 528, 518, 516, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 441, 440, 303, 302, 289, 288, 287, 286, 283

3-ग्राम गुरेला की पश्चिमी दक्षिणी सीमा के निकट ग्राम इस्लामाबाद (अन्दर) की गाटा संख्या 455, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 549, 548, 686, 685, 681, 786, 785, 783, 782, 781, 780, 779, 777, 776, 775, 758, 756, 907, 915, 914, 937, 939, 956 एवं पूर्व-उत्तर ग्राम इस्लामाबाद (जेड ए) की गाटा संख्या 917, 918, 926, 927, 993, 994, 995, 1002, 1001 एवं ग्राम बसविरवा के पश्चिमी गाटा [जो इस्लामाबाद (जेड0 ए0) की सीमा से संलग्न है] 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 45, 48, 49

पश्चिम दिशा :-

1-ग्राम खेतहरा के उत्तर-पूर्व कोने से मोहम्मदी (जेड0 ए0) की पश्चिमी सीमा से पुवायाँ मार्ग तक ग्राम मोहम्मदी (जेड0 ए0) की गाटा संख्या 589, 590, 587, 584, 581, 606, 607, 580, 579, 578, 565, 564, 551, 549, 548, 533, 532, 516, 513, 484, 483, 481, 479, 478, 471, 470, 453, 450

2-ग्राम मगरेना के पूर्व मोहम्मदी पुवायाँ रोड से उत्तर निकट ग्राम बिचपरी तक ग्राम मोहम्मदी (जेड0 ए0) की पश्चिमी गाटा संख्या 138, 137, 131, 130, 129, 128, 25, 24, 23, 22, 20, 2, 1

3-ग्राम बिचपरी, सुआताली तुरकहटा-हटहटपुर के दक्षिण ग्राम बगवाही के पश्चिम-दक्षिण कोने तक ग्राम मोहम्मदी (जेड0 ए0) की गाटा संख्या 1, 8, 43, 45, 46, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 208, 209, 210, 213, 214, 217, 218, 219, 262, 263, 264, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 294, 296, 317, 337, 338

उत्तर दिशा :-

1-ग्राम बगवाही के पश्चिमी-दक्षिणी कोने से गोला रोड तक संलग्न ग्राम इस्लामाबाद (एन0 जेड0 ए0) की गाटा संख्या 157, 158, 159, 160

2-गोला मार्ग से पूर्वोत्तर ग्राम इस्लामाबाद (एन0 जेड0 ए0) की गाटा संख्या 301, 302, 298, 297, 296, 167, 169, 213, 215, 216, 222, 418, 407, 406, 403, 404, 494, 495

दक्षिण दिशा :-

1-ग्राम गुलौली के पश्चिम एवं ग्राम टेगुन खुरमनगर, डेलखेड़ा, कमालसराय के उत्तर ग्राम भानपुर बनवारी की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा तक गाटा संख्या 509, 508, 504, 503, 502, 500, 494, 495, 479, 478, 462, 461, 460, 459, 458, 447, 401, 398, 397, 395, 391, 377, 376, 375, 373, 374, 351, 346, 345, 332, 344, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 320, 316, 315, 302, 301, 39, 1

2-ग्राम गारवपुर के उत्तर ग्राम मोहम्मदी (अन्दर) के निकट गारवपुर मोहम्मदी रोड की गाटा संख्या 755, 753, 752, 741, 740, 726, 723, 725, 721, 720, 719

3-ग्राम गारवपुर के पश्चिम-दक्षिण (शाहजहाँपुर मार्ग को क्रास करते हुए) ग्राम बबौरी की गाटा संख्या 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 124, 123, 122, 120, 119, 118, 117, 116, 114, 113, 112, 3, 4, 2, 1

कुल क्षेत्रफल – 753.031 हे0 / 7.530 वर्ग कि0मी0

इस प्रकार उपरोक्त ग्राम की समस्त गाटा संख्याओं से सीमा प्रारम्भ होती है, जिसके अधीन आच्छादित कुल क्षेत्रफल 753.031 हे0 / 7.530 वर्ग कि0मी0 है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1278/IX-6-2020-06C.V.-2019, dated December 23, 2020 :

No. 1278/IX-6-2020-06C.V.-2019

Dated Lucknow, December 23, 2020

WHEREAS Government notification no. 1876/IX-6-2019-06C.V.-2019, dated December 28, 2019 was published to invite objections and suggestions on the proposal for including the areas specified in the Schedule-I below in the smaller urban area of Municipal Council Mohammadi, district Lakhimpur-Kheri as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916);

AND, WHEREAS, no objection or suggestion has been received within the stipulated period;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the Governor is pleased to include the areas specified in Schedule-I below in the smaller urban area of Municipal Council Mohammadi, district Lakhimpur-Kheri for the purpose of Part IX-A of the Constitution, and is further pleased to notify under clause (d) of Article 243-P of the Constitution that the area specified in Schedule-II below shall be the territorial area of the said Municipal Council Mohammadi, district Lakhimpur-Kheri with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

SCHEDULE-I

Area being included in the smaller urban area of Municipal Council Mohammadi, district Lakhimpur-Kheri

East :-

1. All the Gata Numbers of Basbirba

Gata Numbers- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 क, 204 ख, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 क, 245 ख, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 301/539, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 क, 331 ख, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 क, 362 ख, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 क, 372 ख, 373, 374, 375 क, 375 ख, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 क, 403 ख, 403 ग, 403 घ, 403 ङ, 404 क, 404 ख, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 क, 496 ख, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538

Total No. of Gata-551

Total Area-149.2470 Hect./1.49247 Sq. Km.

2. All the Gata Numbers of Islamabad (Andar)

Gata Numbers- 1/1, 2, 3, 4/1, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 30/2, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 47, 54 मि, 57, 369/1, 369/2, 372/1, 372/2, 948, 949, 950, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 979, 980, 981, 983, 984 मि, 984 मि, 985,

986, 988, 989, 990, 993, 1000मि, 1003/1, 1003/2, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 1011, 1013, 1014, 1017 मि, 1073, 1074, 1075, 1076 मि, 1076 मि, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085

Total No. of Gata-91

Total Area-20.4860 Hect./0.20486 Sq. Km.

3. Partial Gata Numbers of Islamabad (Z.A.)

Gata Numbers- 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 924/2, 925, 926, 927,928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 954, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964,965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981,982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003

Total No. of Gata-68

Total Area-33.477 Hect./0.3347 Sq. Km.

West-North :-

1. All the Gata Numbers of Mohammadi (Andar)

Gata Numbers- 43 मि, 336 मि, 337 मि, 338, 338 मि, 339, 340 मि, 341 मि, 342, 348,349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 मि, 358 मि, 359 मि, 360, 362 मि, 363, 364/3,365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380/1, 382, 383,384, 385 मि, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 407,408, 409, 410 मि, 411, 412, 416, 417 मि, 418, 419, 420, 424, 425, 426, 428 मि, 430 मि,431 मि, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 मि, 442, 448, 449, 450, 451, 452,453, 454, 455, 458, 459, 461, 462 मि, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470 अ, 471, 473,474, 475, 476, 479, 480, 484, 485, 486 मि, 487, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518/1, 518/2, 519, 520, 521, 522,523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541/1,541/2, 542, 543, 545, 549, 550, 551, 555, 556, 557, 558, 559 मि, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 564 मि, 565/1, 565/2, 565/3 मि, 570, 574, 648 मि, 649 मि, 651 मि,652 मि, 653 मि, 653 मि, 658 मि, 658 मि, 659, 660, 661, 663 मि, 663 मि, 664 मि, 664 मि, 665, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 मि, 682 मि,683, 696, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 707, 712, 734 मि, 738, 750 मि, 752, 753 मि, 754मि, 755 मि, 756, 757, 758 मि, 759, 760, 761, 769, 827, 828 मि, 829 मि, 830 मि, 831 मि, 832 मि, 833 मि, 835 मि, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 850, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 873, 874, 875, 880,881 मि, 883 मि, 921, 922, 923, 934, 935, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947,948, 948 मि, 949, 950, 951, 953, 954, 957, 959, 971, 974, 975, 977, 979, 982, 985, 986, 988, 989, 990, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1007, 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1014,1016, 1017, 1018, 1019, 1020 मि, 1021, 1022 मि, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1024,1026, 1027, 1027 ब मि, 1029, 1030, 1031, 1033 मि, 1038 मि, 1039, 1041 मि, 1041 मि, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047/1, 1047/2, 1048, 1049, 1050 मि, 1050 मि, 1051मि, 1052 मि, 1052 मि, 1053 मि, 1054, 1056मि, 1057 मि, 1058, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1071 मि, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085, 1085 मि, 1086, 1087, 1088 मि, 1089 मि, 1089 मि, 1096, 1097, 1098,

Total No. of Gata-386

Total Area-92.9170 Hect./0.92917 Sq. Km.

2. All the Gata Numbers of Mohammadi (Z.A.)

Gata Numbers- 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 मि, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मि, 19 मि,20, 21,22, 23, 24, 25, 25 ब, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 मि, 33, 34 मि, 34 मि, 34 मि, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41 अ, 41 ब, 42/1, 42/3, 43, 44, 45, 45 मि, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57मि, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मि, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 मि, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105 मि, 106, 107, 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115 मि, 116, 117, 118, 119 मि, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 अ, 136 ब, 137, 138, 140, 141,142 अ, 142 ब, 143 अ, 143 ब, 144 अ, 144 ब, 145, 146, 147, 148, 149 अ, 149 ब, 149 मि,150, 151 मि, 151 मि, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 मि, 163,164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,

180,181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 मि, 187 क, 188, 189, 190, 191, 192, 193 अ, 193 ब,194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 मि, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 अ, 213 ब, 214, 215 मि, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 मि, 224 मि, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 अ, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 मि, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 मि,291, 292, 293, 294, 295 मि, 296, 297, 298, 299, 300 मि, 301, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 मि, 311 मि, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 अ, 322 ब, 323 मि, 323 मि, 324, 325, 326, 326 अ, 327, 328, 329 मि, 330, 331, 332, 333, 334 /1, 334 /2, 334 /3, 334 मि, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 मि, 353, 354 मि, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 368, 369, 369 /756, 370, 372, 373, 374, 375 मि, 375 मि, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 मि, 419, 420 मि, 420 मि, 421 मि, 421 मि, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 435 मि, 436, 437, 438मि, 439, 440, 441, 442 मि, 442 मि, 443 मि, 443 मि, 444, 445, 446, 447, 448, 449 अ, 449ब, 450, 451 मि, 452, 453 अ, 453 ब, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 464 ब, 465, 467, 469 मि, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 478 /2, 479, 480, 481, 482, 483, अ, 483 ब, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 मि, 500 मि, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 509मि, 510, 511, 512 /1, 512 /2, 512 /3, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 मि, 524 /2, 524 /2, 525, 526, 527, 528, 529, 530 अ, 530 ब, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558 मि, 558 मि, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 मि, 568 मि, 569, 570, 571, 571 अ, 571 ब, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 595 मि, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 /1, 609 /2, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615 मि, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642 मि, 642 मि, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665 अ, 665 ब, 666, 666, 666 अ, 666 ब, 667, 667, 668, 669 अ, 669 ब, 670, 671, 672, 673, 675, 678, 679, 680, 681, 681 मि, 682, 683, 684 मि, 684 मि, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695 मि, 695 मि, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 मि, 715 मि, 716, 717 मि, 718मि, 718 मि, 719, 719 मि, 720, 721 मि, 721 मि, 722, 723, 724, 725, 727, 728, 729, 730, 731, 731 ब, 732, मि, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741मि, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 754, 755

Total No. of Gata-800

Total Area-250.8970 Hect./2.50897 Sq. Km.

South :-

1. All the Gata Numbers of Babauri

Gata Numbers- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मि, 15 मि, 16, 17 मि, 17 मि, 17 मि 18, 19, 20, 21, 22 मि, 22 मि, 23, 24, 25 मि, 25 मि, 25 मि, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 47 मि, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मि, 71 मि, 72, 72 मि, 73, 74 मि, 74 मि, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 मि, 85 मि,86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 मि, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 मि, 124 मि, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177 मि, 178, 179, 180, 181 मि, 182, 182 मि, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 मि, 191 मि, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200

Total No. of Gata-216

Total Area-70.6760 Hect./0.70676 Sq. Km.

2. All the Gata Numbers of Bhanpur-Banbari

Gata Numbers- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 क, 82 ख, 82 ग, 83,84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143/512, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 क, 234 ख, 234 ग, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 288/511, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 क, 361 ख, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 क, 371 ख, 372, 373, 374, 375, 376, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 क, 490ख, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510

Total No. of Gata-519

Total Area-135.3310 Hect./1.35331 Sq. Km.

Total Number of Gata of above Mentioned Villages-2631

Total Number of Area of above Mentioned Villages 274.696 Hect./2.747 Sq. Km.

SCHEDULE-II

Territorial area of the said Municipal Council Mohammadi, district Lakhimpur-Kheri after including the area specified in Schedule-I

The site wise Gata Nos. of Old Boundaries of Nagar Palika Parishad Mohammadi

East :-

Partial Part of Village Babauri, Mohammadi, Islamabad, Gola-Sahjahanpur Road and Village Garbpur, Bhanpur-Banwari and Basbirwa

1. Gata Nos. of partial portion of Village Babauri - 181, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
2. Gata Nos. of partial portion of Village Mohammadi (Andar) - 719, 720, 740, 741, 752, 753, 754, 755, 734, 735, 757, 681
3. Gata Nos. of partial portion of Village Islamabad (Andar) - 955, 956, 939, 937, 914, 915, 916, 907, 756, 758, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 825, 681, 685, 686, 548, 549, 211, 483, 484, 485, 486, 487, 488
4. Gata Nos. of partial portion of Gola-Sahjahanpur Road - 676, 677

West :-

Partial portion of Village Mohammadi (ZA), Powayan Road & Village Magrena, Bichpari, Suatali

1. Gata Nos. of partial portion of Village Mohammadi- 406, 460, 461, 462, 463, 465, 476, 479, 480, 481, 484, 485, 488, 555, 563, 564, 570, 573, 651, 654, 658, 701, 706, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 738
2. Gata Nos. of partial portion of Powayan Road - 410, 420, 428

North:-

Partial portion of Village Mohammadi (ZA), Islamabad (Andar) & Village Turkahata Hathatpur & Village Bagwahi

1. Gata Nos. of partial portion of Village Mohammadi – 359, 358, 357, 355, 356, 397, 399, 362, 374, 375, 377, 326, 403, 404, 405, 407
2. Gata Nos. of partial portion of Village Islamabad – 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 169, 213, 215, 216, 222, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 408, 407, 406, 403, 404, 494, 495

South:-

Partial portion of Village Babauri, Mohammadi (Andar) & Village Khethara & Sarayan Haar

1. Gata Nos. of partial portion of Village Babauri– 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 48, 54, 90, 94, 95, 96, 145, 157
2. Gata Nos. of partial portion of Village Mohammadi (Andar) – 752, 741, 748, 726, 725, 724, 723, 1079

Total old area- 478.335 Hect./4.783 Sq.Km.

Extended Boundaries of Nagar Palika Parishad Mohammadi, district Lakhimpur-Kheri

All the Gata Nos. of Revenue Village Bhanpur Banwari, village Basvirba are attached in extension of Nagar Palika Parishad Mohammadi. Only 68 newly Gata Nos. of Village Islamabad (ZA) are also attached with all the Gata Nos. of Village Mohammadi (ZA), Village Babauri. According to submitted proposal on Northern limits Gata No. 157, 158, 159 of village Islamabad (Andar) to East & crossing Gata No. 161 of Gola road towards Gata no. 301, 302, 298, 297, 296, 167, 169 of village Islamabad (Andar) and to East Gata No. 213, 215, 216, 222, 408, 407, 406, 403, 404, 494 and after that North-East corner of Gata no. 495 and after that South-East Gata No. 488, 487, 486, 485, 484, 483 of Islamabad (Andar) and walking to East-South Gata No. 549, 548, 686, 685, 681, 786, 785, 783, 782, and to West-South then to East-South corner *via* Gata No. 780, 777, 776, 775, 758, 757, 756, and after that walking to East Gata No. 917, 918, 926, 927, 993, 994, 995, 1002 of Islamabad (ZA) and making North limits of Gata No. 1001 up to East-North corner after that crossing Gulauli Road to East-North side Gata No. 1, 2, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 48, 49, 50, 51, 90, 98 of village Bashvirba up to Gata No. 99 then making the boundaries of Gata No. 96, 92, 126, 109, 110, 112, 113, to South-East side up to East-North corner of Gata No. 538 *Via* Gata No. 121, 153, 156, 157, 158, 163, 160, 168, 169, 170, 174, 494, 495, 496, 536, 537 then making boundaries to East of village Basvirba Gata No. 528, 518, 516, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 441 towards East-South side of Basvirba up to East side corner of Gata No 448, then crossing to Gullauli Road to South-West side making the boundaries of Village Bhanpur Banbari *Via* Gata No. 302, 301, 289, 288, 287, 286, 283, 509, 508, 502, 495, 479, 478, 468, 461, 460, 459, 458, 448, 447, 401, and to South Gata No. 395 of village Bhanpur Banbari attached to Tegun Khurram Nagar and then Gata No. 391, 377, 376, 375, 375, 373, 346, 345, 328, 327, 326, of Bhanpur Banbari up to Gata No. 320 on South-East corner then towards West *Via* Gata No. 316, 301, and Gata No. 39 of Painted Road to West of Gata No. 233, 230, 229, 228, 227, 83, 84, 85, making the boundaries *via* Gata No. 1, 3, 4, 5 of village Islamabad (ZA) Gata No. 973 to South-East corner of new partially attached area then to South of Gata No. 753, 752, 741, 748, 726, 725, 724, 723, 1719, 183, 190 of village Mohammadi (Andar) and to South making boundaries of village Babauri *via* Gata No. 197, 198, 199, up to Gata No. 200 on South-West corner then crossing the National Highway to Shahjahanpur and to North-West Gata No. 124, 123, 122, 120, of village Babauri and making the boundaries *via* Gata No. 119, 118, 117, 116, 113, 112, 041 up to Gata No. 02 the Near Khethara *Via* Gata No. 589, 587, of Mohammadi (ZA) up to Gata No. 584 then to North-West Gata No. 581, 607, 580, 579, 578, 567, 563, 561, 525, 484, 483, 482, 479, 478, 472, 454, 453, of Mohammadi (ZA) making boundaries up to Powayan Road then crossing to Powayan Road near Village Magrena and making the boundaries *Via*

Gata No. 138, 137, 130, 124, 128, 02, of Mohammadi (ZA) to North up to Gata No. 1 on North-West Corner then from Gata No. 41, 45, 52, 61, 62, 63, 213, 214, 217, 219, 262, 263, 264, 267, 272, 275 of Mohammadi (ZA) attached with the village Suatali up to Gata No. 279 towards Gata No. 277 on East-North corner then towards South-East near road then to East of Gata No. 294, 296, 317, 316 and to East making the boundaries *via* Gata no. 319, 327, 337, 338, attached with boundaries of Villlage of Baghbahi up to Gata no. 304 then crossing to Powayan road up to begining point Gata No. 157 Islamabad (Andar).

**Details of Direction wise Gata Nos. Under Extended Boundaries of Nagar Palika Parishad,
Mohammadi, district Lakhimpur-Kheri**

East Direction:-

1. To the South of village Alinagar (West to East) Gata Nos. of Basbirba - 99, 96, 92, 123, 126, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 119, 120, 121, 155, 156, 157, 158, 163, 166, 168, 169, 170, 174, 494, 495, 496, 536, 537, 538
2. To the West of village Gulauli (North to South) up to East-North limits of Villlage Bhanpur Banwari Gata Nos. 538, 528, 518, 516, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 441, 440, 303, 302, 289, 288, 287, 286, 283
3. Gata Nos. of village Islamabad (Andar) near West-South site of village Gurela - 455, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 549, 548, 686, 685, 681, 786, 785, 783, 782, 781, 780, 779, 777, 776, 775, 758, 756, 907, 915, 914, 937, 939, 956 and to East North Gata Nos. of village Islamabad (ZA) - 917, 918, 926, 927, 993, 994, 995, 1002, 1001 and Western Gata Nos. of village Basbirba (which inclosed with the limit Islamabad (ZA) - 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 45, 48, 49

West Direction :-

1. To the North-East corner of Village Khethara *via* western boundaries of Mohammadi (ZA) up to Powayan Road the Gata Nos. of Mohammadi (ZA) - 589, 590, 587, 584, 581, 606, 607, 580, 579, 578, 565, 564, 551, 549, 548, 533, 532, 516, 513, 484, 483, 481, 479, 478, 471, 470, 453, 450
2. To the East of village Magrena and to the North of Powayan Road up to Village Bichpari the Western Gata Nos. of Mohammadi (ZA) - 138, 137, 131, 130, 129, 128, 25, 24, 23, 22, 20, 2, 1
3. To the South of village Bichpari, Suatali, Turkahta Hat-Hatpur and up to West-South corner of village Bagwahi the Gata Nos. of Village Mohammadi (ZA) - 1, 8, 43, 45, 46, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 208, 209, 210, 213, 214, 217, 218, 219, 262, 263, 264, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 294, 296, 317, 337, 338

North Direction :-

From West-South corner of village Bagwahi up to Gola Road the Gata Nos. of inclosed village Islamabad (NZA) - 157, 158, 159, 160

1. To East-North from Gola Road the Gata Nos. of Islamabad (NZA) - 301, 302, 298, 297, 296, 167, 169, 213, 215, 216, 222, 418, 407, 406, 403, 404, 494, 495

South Direction :-

1. To the West of village Gulauli and to the North of village Tegun Khurram Nagar, Delkheda, Kamal Sarai up to South-West limits of village Bhanpur-Banwari Gata Nos. 509, 508, 504, 503, 502, 500, 494, 495, 479, 478, 462, 461, 460, 459, 458, 447, 401, 398, 397, 395, 391, 377, 376, 375, 373, 374, 351, 346, 345, 332, 344, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 320, 316, 315, 302, 301, 39, 1
2. Near the village Mohammadi (Andar) to the North of village Garbapur, the Gata Nos. of Garbapur Mohammadi Road - 755, 753, 752, 741, 740, 726, 723, 725, 721, 720, 719
3. The Gata Nos. of village Babauri (crossing the Sahjahanpur Road) to the West-South - 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 124, 123, 122, 120, 119, 118, 117, 116, 114, 113, 112, 3, 4, 2, 1

Total Area – 753.031 Hect./ 7.530 Sq. Km.

Thus, the limit starts from the all Gata Numbers of above Gata & Village under which area is covered by the total area 753.031 Hect./ 7.530 Square Km.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 645 राजपत्र-2021-(1283)-599 प्रतियाँ (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 12 सा० नगर विकास-2021-(1284)-100 प्रतियाँ (क०/टी०/ऑफसेट)।

